



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन  
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज  
जनसम्पर्क विभाग

संख्या :

कोर/जी/पीआर/10/21

दिनांक 12.11.2021

मुख्य संपादक  
प्रयागराज

प्रेस विज्ञप्ति

केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज ने अर्जित किया एक और उपलब्धि

भारत सरकार द्वारा ब्रॉड गेज रूटों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को मिशन मोड में आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज की अहमदाबाद परियोजना ने सुरेन्द्र नगर से मुली रोड (22 RKM) एवं वीरमगाम से जटपिपली (37 RKM) का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त आज दिनांक 12.11.2021 को सीआरएस निरीक्षण का कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है।

अहमदाबाद-वीरमगाम-सुरेन्द्रनगर-राजकोट (222.8 RKM) का विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। यह खण्ड राजकोट और गुजरात के पश्चिमी बंदरगाहों एवं अन्य कार्गो लोडिंग साइटों को जोड़ेगा। इस खण्ड के 127 RKM का कार्य पूर्व में ही पूर्ण कर लिया गया है। सुरेन्द्र नगर से मुली रोड (22 RKM) का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिनांक 12.11.2021 को सीआरएस निरीक्षण का कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया एवं शेष बचे हुए विद्युतीकरण कार्य जनवरी 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

मेहसाना-वीरमगाम-समख्याली (180 RKM) के 66.81 RKM का कार्य पूर्व में ही पूर्ण कर लिया गया था। इसी खण्ड के वीरमगाम से जटपिपली खण्ड 37 RKM के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सीआरएस निरीक्षण किया गया बाकी बचे हुए कार्य को मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

स्वच्छ पर्यावरण के लिए संकल्पित शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ भारतीय रेल को हरित रेल बनाने की राह पर केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज, अहम भूमिका निभा रहा है।

कोर के महाप्रबन्धक श्री यशपाल सिंह, ने अहमदाबाद परियोजना की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि कोर के सभी नव प्रोजेक्ट भारतवर्ष के सभी ब्रॉडगेज रेल-मार्गों को 2023 तक पूर्ण रूप से विद्युतीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(अमिताभ शर्मा)  
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी  
कोर/प्रयागराज